

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 11] दिल्ली, अगस्त 31—सितम्बर 6, 2018, बृहस्पतिवार/भाद्र 9—भाद्र 15, 1940
No. 11] DELHI, AUGUST 31—SEPTEMBER 6, 2018, THURSDAY/BHADRA 9—BHADRA 15, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

दीवान हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

विट्रोनिक्स इन्फोकॉम प्रा. लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: प्लॉट न. 1 ए

ब्लॉक-A1 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया,

फेज -2, दिल्ली -110028

...प्रतिवादी

कंपनी याचिका संख्या 126/ 2016

याचिका का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 433 (ई) एवं (एफ) साथ में धारा 434 में एक याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता दीवान हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 201, 2nd फ्लोर, विपुल अगोरा, एम जी

रोड, गुडगाँव 122002 हरियाणा द्वारा दिनांक 15-02-2016 को प्रस्तुत की गयी थी तथा कथित याचिका को दिनांक 08-10-2018 प्रातः 10.30 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

कथित याचिका पर किसी आदेश को पारित करने के समर्थन या विरोध के इच्छुक किसी ऋणदाता अंशदानी या किसी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी, के पास स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना, अपने नाम एवं पता सहित, इस प्रकार भेजे कि अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम याचिका के लिए सुनवाई हेतु नियत तिथि अर्थात् 08-10-2018 से 05 दिन पहले पहुंच जाये तथा इस उद्देश्य हेतु सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किसी ऋणदाता या अंशदानी को इसके लिए निर्धारित शुल्क भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

याचिका के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिए शपथ पत्र को न्यायालय में दाखिल करना होगा, तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को अथवा उसके अधिवक्ता को, सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 05 दिन पहले देना होगा।

हस्ता./-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली से सम्बद्ध

8वां फ्लोर, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली 110003

[विज्ञापन - ए /II/II/13/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक _____

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)**

IN

COMPANY PETITION NO 126/2016

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LTD

... PETITIONER

VERSUS

Vtronix Infocom Pvt Limited

Regd. Office. Plot No. 1A Block A1,

Naraina Industrial Area Phase 2

Delhi -110028

... RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition Under Section 433(e) & (f) read with section 434 of the Companies for the winding up of the above Respondent Company by Hon'ble High Court of Delhi on 15.02.2016 was presented by Dewan Housing Finance Corporation Ltd., 201, 2nd Floor, Vipul Agora, MG Road, Gurgaon-122002 (Haryana) and that the said petition is directed to be heard before the Court on 08.10.2018 at 10.30 A.M.

Any Creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the under mentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the under mentioned not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition i.e.

08.10.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the undersigned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Place: New Delhi

Date: _____

Sd./
(D. K. SINGH)
OFFICIAL LIQUIDATOR,
ATTACHED TO THE HON'BLE
HIGH COURT OF DELHI
8TH FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
[ADVT.-A/II/II/13/18]